



भा0कू0अ0प0-केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर (मालपुरा जिला टोंक)वाया जयपुर राजस्थान (भारत) 304501
ICAR- CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE
AVIKANAGAR (MALPURA DISTT. TONK) RAJASTHAN 304501



मि0सं0.: 4(2)प्रशा.प्रथम/आरटीआई/2018/

दिनांक:01/05/2018

निमित्त,

श्रीमति घीसी देवी पुत्री श्री लादुलाल बलाई,
ग्राम डूंगरी कला, तह0 मालपुरा जिला टोंक
(राजस्थान) पिन-304502

विषय:- लोक सूचना अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करवाने के संबंध में।

महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 23/02/2017 के सन्दर्भ में लेख है कि आपके द्वारा चाही गई सूचनाएँ इसके साथ संलग्न है।

क0सं0	चाही गई सूचना	चाही गई सूचना का प्रति उत्तर
1-	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लादुलाल बलाई की सेवा काल 1992 में मृत्यु होने के कारण उसके स्थान उनकी पुत्री घीसी देवी की अनुकम्पा नियुक्ति होने के लिये आपके कार्यालय में उनके घीसी देवी के जमा (सर्विस डायरी, पी0पी0ओ0नं0, रिकार्ड आदि) कागजात निकलवाने बाबत।	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लादुलाल बलाई की सेवा काल 1992 में मृत्यु होने के कारण उसके स्थान उनकी पुत्री घीसी देवी की अनुकम्पा नियुक्ति होने के उपरान्त कार्यालय में घीसी देवी के जमा (सर्विस डायरी, पी0पी0ओ0नं0, रिकार्ड आदि) कागजात की प्रति इसके साथ संलग्न है।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब के विरुद्ध प्रथम अपील, यदि कोई हो, तो वो केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब की प्राप्ति के तीस दिनों में प्रथम अपिलियट ऑथोरिटी को अपील कर सकते हैं। प्रथम अपिलियट ऑथोरिटी का नाम, पद, पता, कार्यालय दूरभाष संख्या एवं ई-मेल आई डी निम्नलिखित है:

डॉ० अरुण कुमार, कार्यकारी निदेशक, भा0कू0अ0प0-केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर,
तहसील-मालपुरा, जिला-टोंक (राजस्थान) पिन-304501, दूरभाष : 01437-220162 (कार्यालय), ई-मेल आई डी:
director.cswri@icar.gov.in

भवदीय,

संलग्न: उपर्युक्त।

Neeraj
11/5/18

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

Tel. No.: 01437-220177 (Office)

E-mail: neeraj.tanwar@icar.gov.in

11/5/18

प्रति:-

- (1)केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, अविकानगर को सूचनार्थ प्रेषित है।
- (2)प्रभारी, कृषि ज्ञान प्रबन्धन इकाई को उपर्युक्त सूचनाओं का प्रकाशन संस्थान के लिंक

http://www.cswri.res.in/right_to_information पर किये जाने हेतु।

Neeraj
11/5/18

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

11/5/18



Telephone : ~~XXXX~~ 40541

Telegram : SHUSHKSHETRA

Telex : 552-218 CAZRI IN

**CENTRAL ARID ZONE RESEARCH INSTITUTE JODHPUR-342 003
A UNIT OF INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH**

No. **ICAR/CAZRI/Pen.7/61/92-93** Dated the **21.01.93**

To

The Finance & Accounts Officer
**Central Sheep & Wool Research Institute,
AVIKANAGAR (Malpura)**

Subject : P.P.O. No. **ICAR/CAZRI/61** and G.P.O. No. **ICAR/CAZRI/62** in respect of
~~xxx~~ Smt. **Kesar Bai w/o. Late Sh. Ladu, Ex-Mazdar of C.S.&W.R.I.,
AVIKANAGAR**

Sir,

I am to forward herewith a P.P.O. No. **ICAR/CAZRI/61** to the grant of

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Family Pension of Rs. **499/- p.m. (Rupees Four hundred
four hundred ninety nine only) - w.e.f. 15.9.92 to 14.9.99 and
6375/- p.m. (Rupees Three hundred seventy five only)**
(~~xxxx~~) p.m. with effect from **15.9.99** on wards till date of
her death or re-marriage whichever is earlier.

subject to recovery of pension and relief, if already paid provisionally in full before making any
payment to Smt./Smt. **Kesar Bai** and to request that the Pensioners's half of the
order may please be made over to him/her after obtaining his/her signatures on the Disburser's half and
you have satisfied of his/her identity. For this purpose ~~xxx~~ Smt. **Kesar Bai**
may be advised to make a personal appearance at the Instt./Centre/Sub-Station.

2. Relief as sanctioned by the Govt. of India from time to time is admissible. The rate of
relief effective from **15.9.92** is @ Rs. **415/83** p.m. subject to Min./Max. of Rs. p.m. as per
orders on the date of issue.

3. Relief is not admissible when the pensioner is re-employed under Central/State Govts/
Autonomous Bodies/Public Sector Undertakings/Corporations.

4. Pension is debitable to Pension & other Retirement Benefits.

5. Slips bearing specimen signatures/descriptive rolls and ~~xxxx~~ Photographs ~~xxxx~~
of Smt. Kesar Bai are enclosed.

6. The acquittance of the Pensioner may be taken with twenty paise Revenue Stamp.

7. a) In the event of his/her death a Family Pension of Rs. (Rupees.....
.....) p.m. upto and @ Rs. (Rupees.....
.....) from onwards will be admissible to Smt./Shri.....
his wife/her husband from the date following the date of his/her death upto her/his re-marriage or death
whichever is earlier.

b) Relief as sanctioned by the Govt. of India from time to time is admissible for family
pension.

Family

8. a) Payment of pension is to be made by crossed cheque drawn in favour of the
Pensioner on the presentation of a bill drawn by himself/herself alongwith the Pensioner's half of the
P.P.O. At the time of passing the bill, necessary entries should be made in both of the halves of the
P.P.O. and the Pensioner's half returned to him/her.

b) While in the case of first payment Smt./Smt. should definitely
have to make a personal appearance at the Instt./Centre/Sub-Station and for the future he/she may
present the bill either personally or through a messenger provided :-

- i) A valid life certificate is endorsed on the bill itself from any one of the authorities referred to in the note in the PPO form; and
- ii) Personal appearance is made once a year or a Certificate in terms of instructions contained in this office Circular No. 1 (8) 69 Audit-I dated 22-6-71 attached to the bill.

P.T.O.

8403
29-1-93

502/31
27/1/93

in RKS
[Handwritten signature]

9. If at any stage, the Pensioner wants to avail of the facility of drawing pension through any branch of State Bank of India, his opinion in the prescribed form may be obtained in duplicate and forwarded to this office along with other documents, as per procedure outlined in Council's letter No. F. I (1) 76 Audit-I dated the 4th August 1977.

10. (a) Subject to conditions and recoveries indicated below, please pay a sum of Rs. **11,964/-**
Eleven thousand nine hundred sixty four only)-
 (Rupees..... **xxx Kesar Bai**

..... in lumpsum to Shri/Smt.....
 being the amount of D.C.R. Gratuity sanctioned to him/her. The provisions of paras 4 to 6 above shall apply and may please be adhered to in the payment of the amount of D.C.R. Gratuity. With a view to avoid any loss to the Council for any reasons (Loans, advances, disciplinary cases etc.), it would be the responsibility of the Pension Disbursing Officers to safeguard against all demands/recoveries on account of House Building Advance/Conveyance Advance/House Rent/Over Payment of pay and allowances etc. to the Ex-Employee and to withheld such amount from the D.C.R. Gratuity. This should be got confirmed from the "Administration" before releasing the amount of D.C.R. Gratuity.

(d) The following amount (s) may be withheld/recovered from the amount of DCR Gratuity :-

The net balance of Rs. **11,964/-** (Rupees **Eleven thousand nine hundred sixty four only)**--

may please be disbursed to him/her.

11. The payment of pension and D. C. R. Gratuity is subject to the prior fulfilment of the undermentioned conditions :-

12.

xxx Kesar Bai w/o. late Sh. Lodu, Ex-Mazdoor
 Shri/Smt..... is being informed of this at the address given below. His/her other particulars are also given below :-
 Address **Village & Post : Dungari Kalan, Teh. Malpura, Distt. Tenk (Raj.)**
45 (Forty five years)
 Date of Birth **(1) Mole on left chice. (2) Mole on chin**
 Mark of Identification **1.58 Meter**
 Height

Please acknowledge its receipt and intimate the drawal of first pension and Death-cum-Retirement Gratuity to the Council.

Yours faithfully,

Senior Finance & Accounts Officer (Pension)
 CAZRI, Jodhpur

Copy forwarded for information and necessary action to :-

- 1) **Shri. J. H. Teh. Malpura, Distt. Tenk (Rajasthan) CS&RI, Avikanagar (Malpura)** with the request to contact the Finance & Accounts Officer..... to receive the payment of pension and death-cum-retirement gratuity.
- 2) The Director, **Dr. Adm. Officer, C. S. & R. I., Avikanagar (Malpura) (Raj.)**
- 3) The Service Book/Leave Account etc. of the concerned employee is returned herewith for record in his office **DDO, CS&RI, Avikanagar**

Supdt. (Audit-II) 2/11
 CAZRI, Jodhpur

E-11
 25/11

FORM NO. 14

(See Rules 77(3) and 81(2))

Form of application for the grant of Family Pension, 1964 on the death of a Government servant/pensioner.

1. Name of the applicant.

(i) Widow/Widower.

Smt. Kesao Bai

(ii) Guardian if the deceased person is survived by child or children.

NA.

2. Name & Age of surviving widow/Widower and children of the deceased council's servant/pensioner

S.No.	Name	Relationship with deceased person.	Date of birth by christian era
1.	Smt. Kesao Bai	wife	45 yrs.
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

3. Name and No. of the P.P.O. of the deceased pensioner.

NO

4. Date of death of council's servant/pensioner.

14-09-72.

5. Office/Department/Ministry in which the deceased Govt. servant/pensioner served last.

C.S.W.R.I., AVIKANAGAR

6. If the applicant is guardian, his date of birth and relationship with the deceased council's servant.

NA.

7. (a) If the applicant is widow/widower the amount of service pension which he may be in receipt on the death of the husband/wife.

Finance & Accounts Officer
C.S.W.R.I., AVIKANAGAR

Contd....

8. Full address of the applicant.

Smt. Kesar Bai
Village & Post - Dungri
Tal. Malpura Dist. Tonk (Raj.)

9. Place of payment of pension and gratuity (Treasury, sub-treasury or public sector Bank branch and pay & Accounts Office).

Finance & Accounts Officer
C S W R Anikangas

10. Enclosures:

(i) Two specimen signatures of the applicant duly attested (to be furnished in two separate sheets).

(ii) Two copies of passport size photograph of the applicant duly attested.

(iii) Two slips each bearing left hand thumb and finger impressions on the applicant duly attested)

(iv) Descriptive Roll of the applicant, duly attested indicating (a) height and (b) personal marks, if any on the hand, face, etc. less than two if possible. (to be furnished in duplicate)

(v) Certificate(s) of age (in original with two attested copies) showing the dates of birth of the children. The certificate should be from the Municipal authorities or from the local panchayat or from the head of a recognised school if the child is studying in such school. (This information should be furnished in respect of such child or children, the particulars of whose date of birth are not available with the Head of Office).

11. Indicate whether family pension is admissible from any other source Military or State Government and/or a public Sector undertaking/ autonomous body/local fund under the Central or a State Government.




NO

12- Signature of left hand thumb impression of the applicant.

R. R. Thakur, Kesar Bai
Malpura



Contd...3..

13. Attested by:

Name	Full Address	Signature.
1. P. S. Rawat	Scientist Sh. CSWRI Avikanagar	
2. 		

Scientist S-2 (Agri. Statistics)
Central Sheep & Wool Research Institute
AVIKANAGAR

14. Witnesses:

1. R. K. Meena	Tech. Asst. CSWRI AVK.	
2. Jamil Ahmad	Sr. Clerk	


2/0 Tech. Asst.
Central Sheep & Wool Research Institute
AVIKANAGAR

Note:- Attestation should be done by two gazetted Government servants or two or more persons of respectability in the town, village or pargana in which the applicant resides.

UNDERTAKING

Smt/Kesar Bai b/o Shri Lal Laddu/Laxman

hereby undertake that I will refund the excess payment of retirement benefits/pension if any made to me.

Signature  R.H. Thumb Kesar Bai/W/O/Lal Laddu

Name Smt. Kesar Bai

Address: V. P. Durgri Teh. Malpura
Dist. Tonk (Raj.)

Tabiyad

845

Sh. Lady S/o Sh. Laxman,
Bada
Mazdoor

क्र. १० अ० प० (२) २७
M.S.O. (T) २७
२(१९६) २३११५

Manufacturing Mills of Graded Wools

ON
SHEEP FARMING

FINE WOOL

Supervised
At 14/4/2

(नाम) श्री/श्री
(Name) योमती/Shrimati
कुमारी/Kumari

LAYMI NARAIN MEE NA

Sh. Lady / S/o Laxman,
Bada
Mazdoor

की

सेवा पुस्तक

SERVICE BOOK

Done in Accord
11/6/69

NOMINATION FOR DEATH-CUM-RETIREMENT GRATUITY

When the officer has a family and wishes to nominate one member of the

I Laddu s/o shri hereby nominate the person mentioned below who is a member of my family and confer on him the right to receive any gratuity that may be sanctioned by Government in the event of my death while in service and the right to receive on my death any gratuity, which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death.

Name and address of Nominee.	Relationship with officer	Age	Circumstances on the happening of which the nomination shall become valid.	Name, address and relationship of the person or persons in any to whom the gratuity shall pass in the event of the nominee pre-deceasing the officer or the nominee dies after the death of the officer but before receiving payment of the gratuity.	Amount of share of gratuity payable to each.
Kashin Sh. Laddu V.P.O. Durgai Distt - Tank Rajasthan	Wife	45 years	Divorce Incapacity Separation Death	Sh. Govinda V.P.O. Durgai Distt - Tank (Rajasthan)	100%
				Son	

This nomination supersedes the nomination made by me earlier on _____ which is hereby cancelled.

Dated this 7th day of April 1975 at AVIKANAGAR

Witness to signature

- सूचनायक
- मौलु

[Signature]
Signature of officer
Designation _____

Note the column No 6 should be filled in to cover the whole amount of gratuity.

(To be filled in by the Head of office in the case of a Non-gazetted officer).

Nomination by Sh. Laddu s/o Laddu

Designation magister.

Office _____

/RR/
1/2/75

[Signature]
Administrative Officer
Central Sheep & Woda Research
Institute AVIKANAGAR.

144

नाम
Name (In full)

2. घर का स्थायी पता (पूरा)
Permanent Home Address (in-full)

3. पिता का नाम (यदि सरकारी कर्मचारी महिला हो तो पति का भी नाम)
और निवास स्थान।
Father's name (and also husband's name in the case of a woman Govt. servant) and residence.

4. राष्ट्रियता (यदि भारत का/की नागरिक न हो तो भारत सरकार द्वारा
प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख)
Nationality (If not a citizen of India, number and date of the certificate of eligibility granted by the Government of India).

5. अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का/की सदस्य हो तो जाति/
आदिम जाति का विवरण।
If a member of Scheduled Caste, Scheduled Tribe, particulars of Caste/Tribe.

6. ईसवी सन् के अनुसार यथासंभव यही-यही जन्म की तारीख।
Date of birth by Christian Era as nearly as can be ascertained.

7. शिक्षा संबंधी योग्यता।
Educational qualifications

8. (बिना जूते के) नापी गई ठीक-ठीक ऊंचाई।
Exact height by measurement (without shoes)

9. शारीरिक पहचान-चिह्न।
Personal mark for identification

10. यदि (अराजपत्रित) कर्मचारी इतना साक्षर नहीं है कि अंग्रेजी, हिंदी या
अन्य प्रादेशिक भाषा में हस्ताक्षर कर सके तो उसके बाएँ हाथ के अंगूठे और
अंगुलियों के निशान।
Left hand thumb and finger impressions of (non-gazetted) officer if he is not literate enough to sign his name in English, Hindi or other regional language.

निम्नलिखित
(Little finger)

अनामिका
(Ring finger)

मध्यमा
(Middle finger)

तर्जनी
(Fore finger)

अंगूठा
(Thumb)

11. सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर
(Signature of the Government servant)

12. कार्यालय अध्यक्ष या तसदीक करने वाले अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर और
पदनाम।

Signature and designation of the head of the Office or other

हस्ताक्षर
Signature

Head of Office,
E. S. W. R. I.
A. P. ANAGAR
1911

Administrative Officer,
S. R. M. J. Avikanagar.
118

नोट 1 :- इस पृष्ठ पर दिये गये इंद्रराजों का तनीयन या साक्षरता न कम से कम हर पांचवे वर्ष हो जाना चाहिये और 11 वीं तथा 12 वीं पंक्ति में किये गए हस्ताक्षरों के नीचे तारीख भी लिखनी चाहिये। इस नियम के अधिन अंगुलियों के निशान हर पांचवे वर्ष लेने की आवश्यकता नहीं है।
नोट 2 :- पुलिस विभागों के सरकारी कर्मचारियों के बारे में अतिरिक्त इंद्रराजों के लिये 32 वां पृष्ठ देखिये।

Note.—(1) The entries on this page should be renewed or re-attested at least every five years, and the signature in lines 11 and 12 should be dated. Finger prints need not be taken afresh every five years under this rule.
(2) For additional entries in respect of Government servants of the Police Departments, please see page 32.

SH. Ladu Balai
Village P.O. - Dorygari Kalan
Malpura (Tone) Rajasthan.

Sri Laxamana Balai

Indian

Scheduled Caste.

22-2-37 (Twenty second February
one thousand nine hundred and
thirty seven).

Literate

Adm. Officer,
Avikanagar

11/2/37

वेतन छुट्टी और पेंशन नियमों के चुनाव और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बारे में इंदराज ।
 "Entries regarding election of pay, leave and pension rules, production of Medical Certificate of fitness, etc. etc".

- 1- Sh. Lodu Balai has been medically examined by the prescribed medical Authority i.e. Dr. R. S. Prasad, Medical Officer, CSWRs, Arikamagan and declared him medically fit for Service vide S.No. 21A of P/F No. 1(47) ESH-I.
2. Statement of his family members is posted in his Service Book.
3. Village - Dornagan, Railway Station Tondi has been declared as home town vide S.No. 21B of F.No. 1(47) ESH-I.
4. Simple verification of his character has been carried out vide S.No. 21D of F.No. 1(47) ESH-I.
5. Shri Lodu S/o Sh. Laxamana belongs to Balai community which is recognised under scheduled caste community.

K. S. Prasad
 Administrative Officer,
 C. S. W. R. S. Arikamagan

1 पद का नाम और वेतनमान Name of post and scale of pay	2 मूल पद है या स्थापना और स्थायी है या अस्थायी* । Whether substantive or officiating, and whether permanent or temporary	3 यदि स्थापना हो तो लिखें कि (1) मूल पद नियुक्ति या अनुच्छेद 371 के अंतर्गत नि. के अनुसार पेंशन के लिये गिनी जाती है ? If officiating, state - (i) substantive appointment, or (ii) whether service counts for pension under Art. 371, C. S. R.	4 मूल पद में वेतन Pay in substantive post		5 स्थापना होने का अतिरिक्त वेतन Additional pay for officiating		6 वेतन शब्द के अंतर्गत अन्य परिशिष्टियां Other emoluments falling under the term "Pay"		7 नियुक्ति की तारीख Date of appointment
			₹. Rs.	₹. P.	₹. Rs.	₹. P.	₹. Rs.	₹. P.	
Mazdoor No. 20-1-80-EB-1-25	Ad. Rec.			70	00			1-4-73 (February)	
MAZDOR Pay fixed at Rs 198/- as per Scale of 1964-3-220 EB-3-238 in the revised scale of pay.				196	00			1-4-73	
- ds -	Temp.			199	00			1-4-74	
- ds -	"			202	00			1-4-75	
- ds -	"			205	00			1-4-76	
- ds -	"			208	00			1-4-77	
- ds -	"			211	00			1-4-78	

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर
Signature of Govt. servant

Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like 'D. M. Singh' and 'D. M. Singh'.

*अस्थायी सेवा के लिए अनुच्छेद 370 के अंतर्गत नि. से संबंधित आवश्यक प्रमाणपत्र आलिखित करन चाहिये ।
* For temporary service, necessary certificate with reference to Article 370, C. S. R. should be recorded.

9	10	11	12	13	14	15
				छुट्टी LEAVE		
<p>सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर Signature of Govt. servant</p> <p>काष्ठम 1 से 8 की तसदीक में कार्यालय के अध्यक्ष या अन्य तसदीक करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और परनाम। Signature and designation of the head of the office or other attesting officer in attestation of columns 1 to 8</p>	<p>नियुक्ति की समाप्ति की तारीख। Date of termination of appointment</p>	<p>समाप्ति का कारण (जैसे पदोन्नति, स्थानान्तरण आदि)। Reason of termination (such as promotion, transfer, or dismissal, etc.)</p>	<p>कार्यालय के अध्यक्ष या अन्य तसदीक करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर। Signature of the head of the office or other attesting officer</p>	<p>छुट्टी का प्रकार व अवधि। Nature and duration of leave taken</p>	<p>चार महिने तक की ऐसी औसत वेतन की छुट्टी की अवधियों का जिनका वेतन दूसरी सरकार को डेबिट किया जाएगा। Allocation of periods of leave on average pay upto four months for which leave salary is debitible to another Government</p> <p>किस सरकार को डेबिट किया जायगी Government to which debitible</p>	<p>सरकारी कर्मचारी को दिये गए किसी अलिखित दण्ड या पुरस्कार का हवाला (संदर्भ)। Reference to any recorded punishment or reward given to the Government servant</p>
<p><i>mk</i> <i>mk</i> Adm Officer Avikanagar</p>	<p>31-3-74</p>	<p>A.I.</p>	<p><i>mk</i> Adm Officer Avikanagar</p>	<p>लो गई</p>	<p>Granted 2 days Earned leave from 1.2.73 to 2.2.73 with prefix Certified that the official would have continued to officiate in the post of <i>Adm Officer</i> from 1.2.73 to 2.2.73</p> <p><i>mk</i> Adm Officer CSWRI, Malpura</p>	<p><i>mk</i></p>
<p><i>mk</i> Adm Officer CSWRI, Malpura</p>	<p>31-3-75</p>	<p>A.I.</p>	<p><i>mk</i> Adm Officer CSWRI, Malpura</p>	<p>लो गई</p>	<p>Granted 4 days Earned leave from 7.7.73 to 10.7.73 and E.O.L. for 8 days from 11.7.73 to 18.7.73 with prefix and suffix Certified that the official would have continued to officiate in the post of <i>Adm Officer</i> but for proceeding the leave from 7.7.73 to 10.7.73</p> <p><i>mk</i> Adm Officer CSWRI, Malpura</p>	<p><i>mk</i></p>
<p><i>mk</i> Adm Officer CSWRI, Malpura</p>	<p>31-3-76</p>	<p>A.I.</p>	<p><i>mk</i> Adm Officer CSWRI, Malpura</p>	<p>लो गई</p>	<p>Granted 34 days E.O.L. leave from 3.12.75 to 3.12.75 with prefix 3.4.85 and suffix 10.12.75 Certified that the official would have continued to officiate in the post of <i>Adm Officer</i> but for proceeding on leave from 3.12.75 to 3.12.75</p> <p><i>mk</i> Adm Officer CSWRI, Malpura</p>	<p><i>mk</i></p>
<p><i>mk</i> Adm Officer CSWRI, Malpura</p>	<p>31-3-77</p>	<p>A.I.</p>	<p><i>mk</i> Adm Officer CSWRI, Malpura</p>	<p>लो गई</p>	<p>Granted 14 days E.O.L. leave from 1.11.75 to 14.11.75 with prefix 1.11.75 and suffix 14.11.75 Certified that the official would have continued to officiate in the post of <i>Adm Officer</i> but for proceeding on leave from 1.11.75 to 14.11.75</p> <p><i>mk</i> Adm Officer CSWRI, Avikanagar</p>	<p><i>mk</i></p>

पद का नाम और घेतनमान
Name of post and scale of Pay

किस पद हे या स्थानापन्न और स्थायी के या अस्थायी के।
Whether substantive or officiating, and Whether permanent or temporary*

यदि स्थानापन्न हो तो लिखें कि (1) मूल पद नियुक्ति या (2) क्या सेवा अनुच्छेद 371 के सं. नि. के अनुसार दिनांक के लिये गिनी जायेगी
If officiating, State--
(i) substantive appointment, or (ii) whether service counts for pension under Art. 371, C. S. R.

मूल पद में वेतन
Pay in substantive post

स्थानापन्न हुनि का अतिरिक्त वेतन
Additional pay for officiating

वेतन शब्द के अंतर्गत अन्य परिचलिकायां
Other emoluments falling under the term "Pay"

नियुक्ति की तारीख
Date of appointment

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर
Signature of Govt. servant

Granted 30 days 62 days
from 4/11/76 to 3/11/76 with prefix 19-58
Certified that the official would have continued to officiate in the post of MAA but for proceeding to have from 22-6-82

Adm. Officer
11/1/77

A.O.
J. P. [Signature]

U.S.W.R.I. Avikanagar
[Signature]

Granted 13 days EARNED
from 18-8-82 to 31-8-82 with prefix 18-82
Certified that the official would have continued to officiate in the post of MAA but for proceeding to have from 17-9-82

6 EARNED
28/9/78 31/10/78
27/9/78 4/11/78

A.O.
U.S.W.R.I. Avikanagar

Granted 6 days EARNED
from 21-8-83 to 10-10-83 with prefix 28-8-83
Certified that the official would have continued to officiate in the post of MAA but for proceeding to have from 29-9-83

Ass. [Signature]

A.O.
U.S.W.R.I. Avikanagar

Granted 6 days EARNED
from 28-8-84 to 14-8-84 with prefix 28-8-84
Certified that the official would have continued to officiate in the post of MAA but for proceeding to have from 14-8-84

6 EARNED
28-8-84 to 14-8-84 with Suffix LC-8-84

A.O.
U.S.W.R.I. Avikanagar

* For temporary service, necessary certificate with reference to Article 371, C.S.R. should be recorded.



8	9	10	11	12	13 छुट्टी LEAVE	14	15
सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर Signature of Govt. servant	कालन / से 8 की तसदीक में कार्यालय के अध्यक्ष या अन्य तसदीक करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम। Signature and designation of the head of the office or other attesting officer in attestation of columns 1 to 9	नियुक्ति की तारीख। Date of termination of appointment	समाप्त का कारण (जैसे पदोन्नति, या बरखा-एली इत्यादि)। Reason of termination (such as promotion, transfer, or dismissal, etc.)	कार्यालय के अध्यक्ष या अन्य तसदीक करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर। Signature of the head of the office or other attesting officer	चार महीने तक की ऐसी औसत वेतन की छुट्टी को अवधियों का बंटवारा किया। छुट्टी वेतन दूसरी सरकार को उचित किया जाएगा। Allocation of periods of leave on average pay upto four months for which leave salary is debitable to another Government किस सरकार को उचित करे कादेशी Government to which debitable	कार्यालय के अध्यक्ष या अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर। Signature of the head of the office or other attesting officer	सरकारी कर्मचारी को दिये गए किसी अविहित दण्ड या पुरस्कार का हवाला (संदर्भ)। Reference to any recorded punishment or reward given to the Government servant
		13 30-4-81 29-4-81	Earned 12-5-81 13-5-81	30-4-81	Appointed in a substantive capacity in the Government based on superannuation proforma of B 196 232 W 4-1-1-A & M.R. No. 51775 dated 2/3/80 4-2-81 JS		
		13-5-81	EARNED leave 19-5-81 20-5-81	13-5-81	17 31/12/78 Magdoo	Earned 19/12/78 20/12/78	
		30-10-84	EARNED leave 31-10-84	30-10-84	13 19-7-79 31-7-79 18-7-79 Certified that the official would have continued to officiate on this post but for proceeding on leave from 19-7-79 to 31-7-79	EARNED leave 31-7-79 18-7-79 Certified that the official would have continued to officiate on this post but for proceeding on leave from 19-7-79 to 31-7-79	
		34 days	EARNED leave 31-7-85	31-7-85	Certified that the official would have continued to officiate on this post but for proceeding on leave from 31-7-85 to 31-7-85	EARNED leave 31-7-85	

C.S.W.R.I., Avikanagar
A.A.O.

C.S.W.R.I., Avikanagar
A.A.O.

1 पद का नाम और वेतनमान Name of post and scale of Pay	2 मूल पद है या स्थानापन्न और स्थायी है या अस्थायी* Whether substantive or officiating and Whether Permanent or Temporary*	3 यदि स्थानापन्न हो तो लिखें कि (1) मूल पद नियुक्ति या (2) क्या सेवा अनुच्छेद 371 के सं० नि० के अनुसार पेशान के लिये गिनी जायेगी If officiating, State— (I) substantive appointment, or (II) whether service counts for pension under Art. 371, C. S. R.	4 मूल पद में वेतन Pay in substantive post		5 स्थानापन्न होने का अतिरिक्त वेतन Additional pay for officiating		6 वेतन शब्द के अंतर्गत अन्य परिलब्धियां Other emoluments falling under the term "Pay"		7 नियुक्ति की तारीख Date of appointment
			₹० Rs.	₹० P.	₹० Rs.	₹० P.	₹० Rs.	₹० P.	
MAZDORR 196-3-220-EB-3-232	Temp.		214	-	214				1-4-73
			217	00					1-4-80
Allowed to cross EB at the stage Rs. 220/- w.e.f. 1-4-82 vide G.O. No. 9(1)BJ- etc. dt. 6.8.82.			220	00					1-4-81
			223	00					1-4-82
			226	00					1-4-83
			229	00					1-4-84

सरकारी
कर्मचार
के हस्ताक्षर
Signature
Govt. Serv

G. M. S.

G. M. S.

G. M. S.

G. M. S.

G. M. S.

G. M. S.

*अस्थायी सेवा के लिए अनुच्छेद 370 के सं० नि० से संबंधित आवश्यक प्रमाणपत्र आलिखित करने चाहिए।
*For temporary service, necessary certificate with reference to Article 370, C.S.R. should be recorded.

8	9	10	11	12	13 छुट्टी LEAVE	14	15
	<p>कालम 1 से 8 की प्रतिलिपि में कार्यालय के अध्यक्ष या अन्य तसदीक करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम। Signature and designation of the head of the office or other attesting officer in attestation of columns 1 to 8</p>	<p>नियुक्ति की समाप्ति की तारीख। Date of termination of appointment</p>	<p>समाप्ति का कारण (जैसे पदोन्नति, स्वास्थ्य या बरखास्तगी इत्यादि)। Reason of termination (such as promotion, transfer, or dismissal, etc.)</p>	<p>कार्यालय के अध्यक्ष या अन्य तसदीक करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर। Signature of the head of the office or other attesting officer</p>	<p>चार महीने तक की ऐसी औसत वेतन की छुट्टी की अवधियों का बटवारा जिनका छुट्टी वेतन दूसरी सरकार को देवित किया जाएगा। Allocation of periods of leave on average pay upto four months for which leave salary is debitable to another Government</p> <p>अवधि का प्रकार व अवधि Nature and duration of leave taken</p> <p>जिस सरकार को देवित की जायेगी Government to which debitable</p>	<p>कार्यालय के अध्यक्ष या अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर। Signature of the head of the office or other attesting officer</p>	<p>सरकारी कर्मचारी को दिये गए किसी अनिश्चित दण्ड या पुरस्कार का हवाला (यदि कोई)। Reference to any recorded punishment or reward given to the Government servant</p>
<p>स. म. क.</p>	<p>31-1-78</p>	<p>31-1-78</p>	<p>Adm. Officer C.S.W. R. I. AVIKANAGAR</p>	<p>31-1-78</p>	<p>4/14/78</p>		
<p>स. म. क.</p>	<p>31-5-79</p>	<p>31-5-79</p>	<p>A.O. C.S.W. AVIKANAGAR</p>	<p>31-5-79</p>			
<p>स. म. क.</p>	<p>31-3-82</p>	<p>31-3-82</p>	<p>A.O. C.S.W. Avikanagar</p>	<p>31-3-82</p>			
<p>स. म. क.</p>	<p>31-3-83</p>	<p>31-3-83</p>	<p>Asstt. Adm. Officer C.S.W. I. AVIKANAGAR (Raj.)</p>	<p>31-3-83</p>			
<p>स. म. क.</p>	<p>31-3-85</p>	<p>31-3-85</p>	<p>Asstt. Adm. Officer C.S.W. R. I. AVIKANAGAR (Raj.)</p>	<p>31-3-85</p>			
<p>स. म. क.</p>	<p>3-4</p>	<p>3-4</p>	<p>Asstt. Adm. Officer C.S.W. R. I. AVIKANAGAR (Raj.)</p>	<p>3-4</p>			

1 पद का नाम और वेतनमान Name of post and scale of pay	2 मूल पद है या स्थानापन्न और स्थायी है या अस्थायी* । Whether substantive or officiating and whether permanent or temporary*	3 यदि स्थानापन्न हो तो लिखें कि (1) मूल पद नियुक्ति या (2) क्या सेवा अनुच्छेद 371 के से०नि० के अनुसार पेंशन के लिये गिनी जावेगी ? If officiating state— (i) substantive appointment, or (ii) whether service counts for pension under Art. 371, C. S. R.	4 मूल पद में वेतन Pay in substantive post		5 रवानापन्न होने का अतिरिक्त वेतन Additional pay for officiating		6 वेतन शब्द के अन्तर्गत अन्य परिलब्धियां Other emoluments falling under the term "Pay"		7 निर्मुक्ति की तारीख Date of appointment
			₹ Rs.	₹ P.	₹ Rs.	₹ P.	₹ Rs.	₹ P.	
S... ..					234-00				26-5-84
B... .. Subst.					238-00				1-5-85
M... ..					242-00				1-5-86
Pay fixed at the stage of Rs. 395/- in the time scale of pay of Rs. 775-12-955-23-14-1985 in the time scale of pay of Rs. 775-12-955-23-14-1985 (Rs. 775-12-955-23-14-1985)					895-00				1-1-86
					14-907-00				1-5-86

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर
Signature of Govt. servant

१०/५

१०/५

१०/५

१०/५

१०/५

*अस्थायी सेवा के लिए अनुच्छेद 370 के तहत आवश्यक प्रमाणपत्र अलिखित करन चाहिए ।
For temporary service, necessary certificate with reference to Article 370, C. S. R. should be recorded.

D. D. O.
C. S. W. R. I.
AMIKANAGAR

8 सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर Signature of Govt. servant	9 कालम 1 से 8 की तसदीक में कार्यालय के अध्यक्ष या अन्य तसदीक करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम Signature and designation of the head of the office or other attesting officer in attestation of columns 1 to 8	10 नियुक्ति की समाप्ति की तारीख। Date of termination of appointment	11 समाप्ति का कारण (जैसे पदोन्नति, स्थानान्तरण या बरखास्ती इत्यादि)। Reason of termination (such as promotion, transfer, or dismissal, etc.)	12 कार्यालय के अध्यक्ष या अन्य तसदीक करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर। Signature of the head of the office or other attesting officer	13 छुट्टी LEAVE चार महीने तक की ऐसी औसत वेतन की छुट्टी की अवधियों का बटवारा जिनका छुट्टी वेतन दूसरी सरकार को डेबिट किया जाएगा। Allocation of periods of leave on average pay upto four months for which leave salary is debitable to another Government को यह छुट्टी का प्रकार व अवधि Nature and duration of leave taken अवधियां Periods किस सरकार को डेबिट की जायगी Government to which debitable	14 कार्यालय के अध्यक्ष या अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर। Signature of the head of the office or other attesting officer	15 सरकारी कर्मचारी को दिये गए किसी अलिखित दण्ड या पुरस्कार का हवाला (संदर्भ) Reference to any recorded punishment or reward given to the Government servant
D.M.C.	ASST. ADM. OFFICER G. S. W. R. I. AVIKANAGAR (Raj.)		ASST. ADM. OFFICER G. S. W. R. I. AVIKANAGAR (Raj.)		Allowed 25 P. Gross... 18 25 at the stage of B 234/ ... 236-4-234-EB-4-250 V... ... Actual 14/10 25		
D.D.O.	ASST. ADM. OFFICER G. S. W. R. I. AVIKANAGAR (Raj.)		D. D. O.				
D.M.C.	D. D. O.		D. D. O. C. S. W. R. I. AVIKANAGAR				
D.M.C.	D. D. O. C. S. W. R. I. AVIKANAGAR		D. D. O. C. S. W. R. I. AVIKANAGAR				
D.M.C.	D. D. O. C. S. W. R. I. AVIKANAGAR	12/12	D. D. O. C. S. W. R. I. AVIKANAGAR				
D.M.C.	D. D. O. C. S. W. R. I. AVIKANAGAR	12/12	D. D. O. C. S. W. R. I. AVIKANAGAR				

1 पद का नाम और वेतनमान Name of post and scale of pay	2 मूल पद है या स्थानापन्न और स्थायी है या अस्थायी* । Whether substantive or officiating, and whether permanent or temporary*	3 यदि स्थानापन्न हो तो लिखें कि (1) मूल पद नियुक्ति या (2) श्या सेवा नि० के अनुसार पेशान के लिए भिती जायगी । If officiating state— (1) substantive appointment, or (ii) whether service counts for pension under Art. 371, C. S. R.	4 मूल पद में वेतन Pay in substantive post		5 स्थानापन्न होने का अतिरिक्त वेतन Additional pay for officiating		6 वेतन शब्द के अन्तर्गत अन्य परिकल्पनाएं Other emoluments falling under the term "Pay"		7 नियुक्ति का तारीख Date of appointment
			रु. Rs.	पं. P.	रु. Rs.	पं. P.	रु. Rs.	पं. P.	
B/F at page No. 10 Mazdoor (SSGr. F) (Rs. 775-12-955-BB-14-1025)					919-00		1-5-87		
da		Officiating			931-00		1-5-88		
Mazdoor (SSGrade-II) (Rs. 775-12-955-EB-40-1025)		Officiating			890-00		24-2-87		
da		da			85931-00		1-2-88		
सुरक्षा		सुरक्षा			8593-00		1-2-89		

1/ See act page no. 14

* अस्थायी सेवा के लिए अनुच्छेद 370 के ० से० नि० में संबंधित आवश्यक प्रमाणपत्र आलिखित करने चाहिए ।
* For temporary service, necessary certificate with reference to Article 370, C. S. R. should be recorded.

8	9	10	11	12	13 छुट्टी LEAVE	14	15
सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर Signature of Govt. servant	कालम 1 से 8 की तसदीक में कार्यालय के अध्यक्ष या अन्य तसदीक करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम Signature and designation of the head of the office or other attesting officer in attestation of columns 1 to 8	नियुक्ति की समाप्ति की तारीख Date of termination of appointment	समाप्ति का कारण (जैसे पदोन्नति, स्थानान्तरण या बरखास्ती इत्यादि) Reason of termination (such as promotion, transfer, or dismissal, etc.)	कार्यालय के अध्यक्ष या अन्य तसदीक करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the head of the office or other attesting officer	छुट्टी का प्रकार व अवधि Nature and duration of leave taken चार महीने तक की ऐसी औसत वेतन की छुट्टी की अवधियोंका वटवारा जितका छुट्टी वेतन दूसरी सरकार को डेबिट किया जाएगा Allocation of periods of leave on average pay upto four months for which leave salary is debitible to another Government किस सरकार को डेबिट की जावेगी Government to which debitible	कार्यालय के अध्यक्ष या अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the head of the office or other attesting officer	सरकारी कर्मचारी को दिए गए किसी अलिखित दण्ड या पुरस्कार का हवाला (संदर्भ) Referenceto any recorded punishment or reward given to the Government servant
C.M.G. C.S.W.R.I. AVIKANAGAR 1948	C.S.W.R.I. AVIKANAGAR 1948	AI	AI	AI	Completed probationary period satisfactorily in the post of S.S. Gr-II (Magdary) as on 25.5.1948 vide No. 7 (187)-D.C. dt. 20-7-48.	A.M. Office C.S.W.R.I. AVIKANAGAR 1948	
C.S.W.R.I. AVIKANAGAR 1948	Stepping up of pay by	31.8.48	Annual Inc.	H.O. 1948	His promotion laid down under FR. (DCC) (a) and Note No. 7 of General's letter No. 411 D.O. S. (A.P.) Dated 8.10.46 approved the stepping up of pay to Rs. 215-00 fixed on 24.2.47 on his promotion. The date of next increment will be 1.3.48 vide O.M.O. 6(1) E.P.G. dt. 1.1.48 dated 29.5.48	A.M. Office C.S.W.R.I. AVIKANAGAR 1948	
C.S.W.R.I. AVIKANAGAR 1948	31.8.48	31.8.48	31.8.48	31.8.48		A.M. Office C.S.W.R.I. AVIKANAGAR 1948	
C.S.W.R.I. AVIKANAGAR 1948							

1 पद का नाम और वेतनमान Name of post and scale of pay	2 मूल पद है या स्थानापन्न और स्थायी है या अस्थायी* Whether substantive or officiating, and whether permanent or temporary*	3 यदि स्थानापन्न हो तो लिख कि (1) मूल पद नियुक्त या अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत नि. के अनुसार पेंशन के लिये गिनी जायेगी ? If officiating, state— (i) substantive appointment, or (ii) whether service counts for pension under Art. 371, C. S. R.	4 मूल पद में वेतन Pay in substantive post	5 स्थानापन्न होने का अतिरिक्त वेतन Additional pay for officiating	6 वेतन शब्द के अन्तर्गत अन्य परिणतियां Other emoluments falling under the term "Pay"	7 नियुक्ति की तारीख Date of appointment	
उ.प्र. 12-13			₹ 0 Rs.	₹ 0 P.	₹ 0 Rs.	₹ 0 P.	
हम-एन-जी-11		स्थायी					
₹ 775-12-871-63-14-1025					₹ 899-00		1-1-86
कामलिनी अडिशनल क. 2 (283) 2187 नं. दि. 7-2-86					₹ 913-00		1-5-86
के द्वारा वेतन अडिशनल 775-12-871-63-14-1025 से है 1-1-86 को अम्बे 899/- रुका					₹ 927-00		24-2-87
दि. 24-2-87 को अम्बे 927/- के अन्तर्गत पर					₹ 941-00		1-2-88
अलग-विशेष क्लर्क ग्रेड 1 उन्की जा. के. वृ. सी. गरीब 1-2-88 से					₹ 955-00		1-2-89
					₹ 969-00		1-2-90
					₹ 983-00		1-2-91
					₹ 997-00		1-2-92
(1) Family Pension: ₹ 499/- p.m. (Rupees four hundred ninety nine) w.e.f. 15-9-92							
14-9-92) and ₹ 375/- p.m. (Rupees Three hundred seventy five) only w.e.f. 15-9-99 onwards being the amount of family pension sanctioned to Smt. Kesar Bai wife of late Sh. Laxmi Ex. Reg. Major of C.S. & W.A.T. Bangalore.							
(2) Death Gratuity: ₹ 11,964/- (Rupees Eleven thousand nine hundred sixty four) only being the amount of death gratuity sanctioned to Smt. Kesar Bai wife of late Sh. Laxmi Ex. Reg. Major.							

Exhibit
Death
by the

*अस्थायी सेवा के लिए अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत से संबंधित आवश्यक प्रमाणपत्र अलिखित करने पर ही A. Z. H. Jodhpur
*For temporary service, necessary certificate with reference to Article 370, C. S. R. should be received.

21

21/93
A. Z. H. Jodhpur

8 सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर Signature of Govt. servant	9 कालम 1 से 8 की तसदीक में कार्यालय के अध्यक्ष या अन्य तसदीक करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम Signature and designation of the head of the office or other attesting officer in attestation of columns 1 to 8	10 नियुक्ति की समाप्ति की तारीख Date of termination of appointment	11 समाप्ति का कारण (जैसे पदोन्नति, स्थानान्तरण या बरखास्तगी इत्यादि) Reason of termination (such as promotion, transfer, or dismissal, etc.)	12 कार्यालय के अध्यक्ष या अन्य तसदीक करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the head of the office or other attesting officer	13 छुट्टी LEAVE चार महिने तक की ऐसी औसत वेतन की छुट्टी की अवधियों का बटवारा जिनका छुट्टी वेतन दूसरी सरकार को डेबिट किया जाएगा Allocation of periods of leave on average pay upto four months for which leave salary is debitable to another Government. नियुक्ति का प्रकार व अवधि Nature and duration of leave taken अवधियाँ Periods किस सरकार को डेबिट की जायेगी Government to which debitable	14 कार्यालय के अध्यक्ष या अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of the head of the office or other attesting officer	15 सरकारी कर्मचारी को दिए गए किसी आलिखित दण्ड या पुरस्कार का हवाला (संदर्भ) Reference to any recorded punishment or reward given to the Government servant	
	Adm. Officer Avikanagar	31-1-90	मेरे	Adm. Officer Avikanagar				
	Adm. Officer Avikanagar	31-1-91	मेरे	Adm. Officer Avikanagar				
	Adm. Officer Avikanagar	31-1-92	मेरे	Adm. Officer Avikanagar				

Excluded Rs. 14-9-92 as per
Bank chublat issued
by the Registrar, Durg.
Cents
Avikanagar

A sum of Rs. 9308/- has
been sanctioned & paid on
account of cash equivalent
to leave salary (15.3 days @ E.H.)
vide Bill No. 1811 (NCP)
dated 28-1-92

G.S.R.I., Avikanagar